

Lev

Chapter 20

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: 1
और-बोला यहोवा से- मूसा कहते-हुए
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

यहोवा ने मूसा से कहा,

וְאֵל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תֹּאמַר אִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן-הַגֵּר 2
और-से- पुत्रों इस्राएल कहुना कौई-भी कौई-व्यक्ति मं-से-पुत्रों इस्राएल-के या-में-से- परदेशी रहनेवाला
H0413 H3478 H0559 H0376 H0376 H3478 H1616

בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתֵּן מִזֶּרְעוֹ לְמוֹלֵךְ-לִמְלֶכֶת אִתּוֹ מִן-בְּנֵי הָאָרֶץ 3
इस्राएल-में जो देगा अपने-वंश-में-से मारे-जाने-से मारा-जाएगा भूमि-के
H3478 H5414 H2233 H4432 H4191 H0776

וְאֵת-הַפֶּתֶר יִרְמָהוּ בְּאֶבֶן: 4
पत्थर-से पत्थर-मारेंगे-उसे
H0068 H7275

“तुम्हें इस्राएल के लोगों से यह भी कहना चाहिए: तुम्हारे देश में कोई व्यक्ति अनपे बच्चों में से किसी को झूठे देवता मोलेक को दे सकता है। उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। इससे अन्तर नहीं पड़ता कि वह इस्राएल का नागरि है या इस्राएल में रहने वाला कोई विदेशी है, तुम्हें उस पत्थर फेंक फेंक कर मार जालना चाहिए।

וְאֵת-אֶתְנָן אֶת-פִּי אֶת-בְּאֵשׁ הַחַוּוּא וְהִכַּרְתִּי אֹתוֹ מִקְרָב 3
लगाऊंगा और-में अपना-मुख को- उस-मनुष्य-के-विरुद्ध और-काट-डालूंगा उसे बीच-से
H0589 H5414 H0853 H6440 H0376 H1931 H3772 H0853 H7130

עַל-שֵׁמוֹתָי וְלֹחֲלֵל אֶת-קְדְשִׁי: 4
अपनी-प्रजा-के क्योंकि अपने-वंश-में-से दिया मोलेक-को इसलिए-कि अशुद्ध-करे को- मेरे-पवित्र-स्थान
H0776 H2233 H5414 H4432 H4616 H0853 H4720

וְלֹחֲלֵל אֶת-שְׁמִי וְלֹחֲלֵל אֶת-קְדְשִׁי: 5
और-अपवित्र-करे को- नाम को- मेरी-पवित्रता-का
H0853 H8034 H6944

मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध होऊंगा। मैं उसे उसके लोगों से अलग करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों को मोलेक को दिया। उसने यह प्रकट किया कि वह मेरे पवित्र नाम का सम्मान नहीं करता। उसने मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया।

וְאֵת-הָאָרֶץ אֲנִי מְחַיֵּימוֹתָהּ עָלֶיךָ וְעַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל 4
भूमि-के लोग छिपाएं छिपाते-हुए और-यदि उसे मारना न-करने-को
H0776 H5956 H5956 H0853 H4191 H1115

מִזֶּרְעוֹ לְמוֹלֵךְ-לִמְלֶכֶת אִתּוֹ מִן-בְּנֵי הָאָרֶץ 5
अपने-वंश-में-से मोलेक-को न-करने-को मारना
H2233 H4432 H1115 H4191 H0853

सम्भव है साधारण लोग उस व्यक्ति की उपेक्षा करे। सम्भव है वे उस व्यक्ति को न मारे जिसने बच्चों को मोलेक को दिया है।

5 וְהִכְרַתִּי וּבְמִשְׁפַּחְתּוֹ וְהָיָה בְּאִישׁ פְּנִי אֶת-אֲנִי וְשִׁמְרֵי 5
 और-काट-डालूंगा और-उसके-परिवार-के-विरुद्ध उस उस-मनुष्य-के-विरुद्ध अपना-मुख को- मैं तो-लगाऊंगा
[H3772](#) [H4940](#) [H1931](#) [H0376](#) [H6440](#) [H0853](#) [H0589](#)

מִקְרֵב הַמֶּלֶךְ אַחֲרָיו לִיגוֹת אַחֲרָיו הַזֵּנִים כָּל-וְאֵת אֹתוֹ
 बीच-से मोलेक-के पीछे व्यभिचार-करने-को उसके-पीछे व्यभिचार-करनेवालों सब- और-को- उसे
[H7130](#) [H4432](#) [H2181](#) [H2181](#) [H3605](#) [H0853](#) [H0853](#)

עַמּוּם :
 उनकी-प्रजा-के

किन्तु मैं उस व्यक्ति और उसके परिवार के विरुद्ध होऊँगा। मैं उसे उसके लोगों से अलग करूँगा मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को उसके लोगों से अलग करूँगा जो मेरे प्रति विश्वास नहीं रखता और मोलेक का अनुसरण करता है।

6 וְהִנָּפֵשׁ אֲשֶׁר תִּפְנֶה אֶל-הָאֲבֹתַי וְאֶל-הַיְדְעָנִים לִיגוֹת אַחֲרֵיהֶם
 और-वह-प्राण जो मुड़ेगा की-ओर- भूतों और-की-ओर- जाननेवालों व्यभिचार-करने-को उनके-पीछे
[H5315](#) [H6437](#) [H0413](#) [H0178](#) [H0413](#) [H3049](#) [H2181](#)

וְנִתְּתִי וְאֶת-פְּנֵי בְנֵי-פְנֵי אֶת-מִקְרֵב עַמּוּם
 तो-लगाऊंगा को- अपना-मुख उस-प्राण-के-विरुद्ध बीच-से उसे और-काट-डालूंगा और-काट-डालूंगा अपनी-प्रजा-के
[H5414](#) [H0853](#) [H6440](#) [H5315](#) [H1931](#) [H3772](#) [H0853](#) [H7130](#)

“मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध होऊँगा जो किसी ओझा और भूतसिद्धि के पास सलाह के लिए जाता है। वह व्यक्ति मुझसे विश्वासघात करता है। इसलिए मैं उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग करूँगा।

7 וְהִתְקַדְּשׁוּם וְהִייתֶם קְדָשִׁים כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם
 और-पवित्र-करोगे-अपने-आप-को और-होगे पवित्र क्योंकि मैं यहीवा यहीवा तुम्हारा-परमेश्वर
[H6942](#) [H1961](#) [H6918](#) [H0589](#) [H3068](#) [H0430](#)

“विशेष बनो। अपने को पवित्र बनाओ। क्यों? क्योंकि मैं पवित्र हूँ! मैं तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूँ!

8 וְשִׁמְרֵתֶם אֶת-חֻקֹּתַי וְעִשִּׂיתֶם אִתָּם אֲנִי יְהוָה מְקַדְּשְׁכֶם
 और-पालन-करोगे और-पालन-करोगे को- मेरी-विधियों और-करोगे मैं यहीवा पवित्र-करनेवाला-तुम्हें
[H8104](#) [H0853](#) [H2708](#) [H0853](#) [H0589](#) [H3068](#) [H6942](#)

मेरे आज्ञाओं का पान करो और उन्हें याद रखो। मैं यहीवा हूँ और मैंने तुम्हें अपना विशेष लोग बनाया है।

9 כִּי-אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יִקְלַל אֶת-אָבִיו אֶת-אִשׁ אִשׁ יוֹמֵת
 क्योंकि- कोई-भी व्यक्ति जो शप-दे को- अपने-पिता को- मारा-जाएगा मारे-जाने-से अपनी-माता और-को- अपने-पिता को- मारा-जाएगा
[H0376](#) [H0376](#) [H0376](#) [H7043](#) [H0853](#) [H0001](#) [H0853](#) [H4191](#) [H4191](#) [H0517](#)

אָבִיו וְאִמּוֹ קָלַל וְדָמְיוֹ בּוֹ
 अपने-पिता और-अपनी-माता-को शप-दिया उसका-खून उस-पर
[H0001](#) [H0517](#) [H7043](#) [H1818](#)

“यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के अनिष्ट की कामना करता है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। उसने अपने पिता या माँ का अनिष्ट चाहा है, इसलिए उसे दण्ड देना चाहिए।

10 וְאִישׁ וְאִשׁ אֲשֶׁר יִנְאָף אֶת-אִשְׁתּוֹ אִשׁ אִשׁ יִנְאָף
 और-कोई और-कोई जो व्यभिचार-करे व्यभिचार-करे के-साथ- पत्नी पत्नी किसी-पुरुष-की पत्नी के-साथ- व्यभिचार-करे
[H0376](#) [H0376](#) [H5003](#) [H0854](#) [H0802](#) [H0854](#) [H5003](#) [H0802](#) [H0854](#) [H5003](#)

וְהִנָּאֲפֹתָ : וְהִנָּאֲפֹתָ יוֹמֵת מוֹת-וְהָיָה
 और-व्यभिचारिणी व्यभिचारी मारा-जाएगा मारे-जाने-से- अपने-पड़ोसी-की
[H5003](#) [H5003](#) [H4191](#) [H4191](#) [H7453](#)

“यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक सम्बन्ध के अपराधी हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को मार डालना चाहिए।

מֹתֵ- मारे-जाने-से- H4191	גִּלְיָה उघाड़ी H1540	אָבִיו अपने-पिता-की H0001	עֲרֹנָת नमनता H6172	אָבִיו अपने-पिता-की H0001	אִשְׁתּוֹ पत्नी H0802	אֶת- के-साथ- H0854	יֹשֶׁבֶת लेटेगा H7901	אִשְׁרָה जो H0854	וְאִישׁ और-कोई H0376	11
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	----

: בָּם
उन-पर
H1818

דְּמֵיהֶם
उनका-खून
H8147

שְׁנֵיהֶם
दोनों
H8147

יוֹמְתוֹ
मारे-जाएंगे
H4191

यदि कोई व्यक्ति अपनी विमाता से यौन सम्बन्ध करता है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। उस व्यक्ति को और उसकी विमाता दोनों को मार डालना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है।

דְּמֵיהֶם उनका-खून H1818	עָשָׂו किया H8397	תְּבִילָה विकृति H8397	שְׁנֵיהֶם दोनों H8147	יוֹמְתוֹ मारे-जाएंगे H4191	מֹתֵ- मारे-जाने-से H4191	כָּלְתּוֹ अपनी-बहू H3618	אֶת- के-साथ- H0854	יֹשֶׁבֶת लेटेगा H7901	אִשְׁרָה जो H0854	וְאִישׁ और-कोई H0376	12
--------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	----

: בָּם
उन-पर

“यदि कोई व्यक्ति अपनी पुओत्रवधू के साथ यौनसम्बन्ध करता है तो दोनों को मार डालना चाहिए। उन्होंने बहुत बुरा यौन पाप किया है। उन्हें दण्ड अवश्य मिलना चाहिए।

מֹתֵ- मारे-जाने-से H4191	שְׁנֵיהֶם दोनों-ने H8147	עָשָׂו किया H8397	תּוֹעֵבָה घृणित H8441	אִשָּׁה स्त्री-के H0802	מְשַׁכְּבֵי शयन H4904	זָכָר पुरुष H2145	אֶת- के-साथ- H0854	יֹשֶׁבֶת लेटेगा H7901	אִשְׁרָה जो H0854	וְאִישׁ और-कोई H0376	13
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	----

: בָּם
उन-पर
H1818

דְּמֵיהֶם
उनका-खून
H8147

יוֹמְתוֹ
मारे-जाएंगे
H4191

“यदि कोई व्यक्ति किसी पुरुष के साथ स्त्री जैसा यौन सम्बन्ध करता है तो दोनों को मार डालना चाहिए। उन्होंने बहुत बुरा यौन पाप किया है। उन्हें दण्ड अवश्य मिलना चाहिए।

אֹתוֹ उसे H0853	יִשְׂרָפוּ जलाएंगे H8313	בְּאֵשׁ आग-में H0784	הוּא है-यह H1931	זְמָה दुष्कर्म H2154	אִמָּה उसकी-माता H0517	וְאִתָּ- और-को- H0853	אִשָּׁה स्त्री H0802	אֶת- को- H0853	יָקַח लेगा H3947	אִשְׁרָה जो H0854	וְאִישׁ और-कोई H0376	14
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	----

: בְּתוֹכֵכֶם
तुम्हारे-बीच
H8432

זְמָה
दुष्कर्म
H2154

תַּהֲרִיגָה
हीगी
H1961

וְלֹא-
और-नहीं-
H3808

וְאִתָּו
और-उन्हें
H0853

“यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री और उसकी माँ के साथ यौन सम्बन्ध करता है तो यह यौन पाप है। लोगों को उस व्यक्ति तथा दोनों स्त्रियों को आग में जला देना चाहिए। इस यौन पाप को अपने लोगों में मत होने दो।

: תַּהֲרִיגוּ मारोगे H2026	חַיָּוִת पशु H0929	וְאִתָּ- और-को- H0853	יוֹמְתוֹ मारा-जाएगा H4191	מֹתֵ- मारे-जाने-से H4191	בְּחַיָּוִת पशु-में H0929	שְׁכִבְתּוֹ अपना-वीर्य H7903	יָתַן देगा H5414	אִשְׁרָה जो H0854	וְאִישׁ और-कोई H0376	15
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	----

“यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर से यौन सम्बन्ध करे तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए और तुम्हें उस जानवर को भी मार देना चाहिए।

אֶת- को- H0853	וְהִרְגֵתָ तो-मारोगे H2026	אִתּוֹ उससे H0854	לְרִבְעָה सम्भोग-करवाने-को H7250	בְּחַיָּוִת पशु H0929	כָּל- किसी-भी- H3605	אֶל- के-पास- H0413	תִּקְרַב निकट-आए H7126	אִשְׁרָה जो H0854	וְאִשָּׁה और-स्त्री H0802	16
----------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------------	----

: בָּם
उन-पर
H1818

דְּמֵיהֶם
उनका-खून
H8147

יוֹמְתוֹ
मारे-जाएंगे
H4191

מֹתֵ-
मारे-जाने-से
H4191

חַיָּוִת
पशु
H0929

וְאִתָּ-
और-को-
H0853

הָאִשָּׁה
स्त्री
H0802

यदि कोई स्त्री किसी जानवर से यौन सम्बन्ध करती है तो तुम्हें अवश्य मार देना चाहिए। उन्हें दण्ड अवश्य मिलना चाहिए।

17 וְאִישׁ אֶשְׂרָר יִקַּח אֶת־ אֶחָתָו בֵּת־ אָבִיו אֹו בֵּת־ אִמּוֹ
 और-कोई जो- लेगा को- अपनी-बहन को- बेटे- अपने-पिता-की या बेटे- अपनी-माता-की
 H0376 H3947 H0853 H0269 H1323 H0001 H1323 H0517

וְרָאָה אֶת־ עֲרֻתָּהּ וְהָיָה תִּרְאָה אֶת־ עֲרֻתּוֹ וְנִכְרְתוּ
 और-देखेगा को- उसकी-नग्नता और-वह- देखेगी को- उसकी-नग्नता और-काट-डाले-जाएंगे
 H7200 H0853 H6172 H1931 H7200 H0853 H6172 H3772

לְעֵינָי וּבְנֵי עַמּוֹת עֲרֻתָּו אֶחָתָו גְּלוּלָהּ עֹנֵו יִשְׂאֵ:
 आंखों-के-सामने पुत्रों अपनी-प्रजा-के नग्नता अपनी-बहन-की उघाड़ी अपना-अधर्म उठाएगा
 H5375 H5771 H1540 H0269 H6172

“यह एक भाई और उसकी बहन के लिए लज्जाजनक है कि आपस में वे यौन सम्बन्ध करे। उन्हें सामाजिक रूप में दण्ड मिलना चाहिए। वे अपने लोगों से अलग कर दिए जाने चाहिए। वह व्यक्ति जिसने अपनी बहन के साथ यौन सम्बन्ध किया है, अपने पाप के लिए दण्ड पाएगा।

18 וְאִישׁ אֶשְׂרָר יִשְׁכַּב אֶת־ אִשְׁהָ רְזָוָה וְנָגְלָהּ אֶת־ עֲרֻתָּהּ אֶת־ מְקַרְתָּהּ
 और-कोई जो- लेटेगा के-साथ- स्त्री रजस्वला और-उघाड़ेगा और-उघाड़ेगा को- उसके-स्रोत
 H0376 H7901 H0854 H0802 H1739 H1540 H0853 H4726

הָעֵרָה וְהָיָה גְלוּלָהּ אֶת־ מְקַרְוּ רְזָוָהּ שְׁנֵיהֶם מְקַרְבֵּי עַמּוֹת:
 खोला और-उसने उघाड़ा को- स्रोत अपने-रक्त-का और-उघाड़ेगा तो-काट-डाले-जाएंगे दोनों बीच-से अपनी-प्रजा-के
 H6168 H1931 H1540 H0853 H4726 H1818 H3772 H8147 H7130

“यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ मासिकधर्म के रक्त स्राव के समय यौन सम्बन्ध करेगा तो स्त्री पुरुष दोनों को अपने लोगों से अलग कर देना चाहिए। उन्होंने पाप किया है क्योंकि उसने खून के स्रोत को उघाड़ा।

19 וְעֲרֻתָּו אֶחָתָו אִמּוֹ וְאֶחָתָו אֶת־ אִשְׁתּוֹ אֶת־ כִּי לֹא אָבִיו אֶת־ אֶחָתָו
 और-नग्नता और-नग्नता अपनी-माता-की और-बहन-की को- क्योंकि उघाड़ोगे नहीं अपने-पिता-की अपने-पिता-की
 H6172 H0269 H0517 H0269 H0853 H0001 H1540 H3808 H0853

שְׂאֵרוֹ הָעֵרָה עֹנָם יִשְׂאוּ:
 अपने-रक्त-सम्बन्धी खोला अपना-अधर्म उठाएंगे
 H7607 H6168 H5771 H5375

“तुम्हें यौन सम्बन्ध अपनी माँ की बहन या पिता की बहन के साथ नहीं करना चाहिए। यह गोत्रिय अनैतिकता का पाप है। उन्हें उनके पाप के लिए दण्ड मिलागा।

20 וְאִישׁ אֶשְׂרָר יִשְׁכַּב אֶת־ אִשְׁתּוֹ וְרָדְתוּ אֶת־ אִשְׁתּוֹ וְיִשְׂאוּ עֲרֻרִים
 और-कोई जो लेटेगा के-साथ- अपनी-चाची नग्नता अपनी-चाची को- उठाएंगे अपना-पाप उघाड़ी अपने-चाचा-की
 H0376 H7901 H0854 H1733 H6172 H1733 H1730 H2399 H5375 H6185

יָמָו מְרֵגֵי
 मरेगी
 H4191

“किसी पुरुष को अपने चाचा मामा की पत्नी के सात नहीं सोना चाहिए। ह व्यक्ति तथा उसकी चाची वे मामी को उनके पापों के लिए दण्ड मिलेगा। वे बिना किसी सन्तान के मरेगी।

21 וְאִישׁ אֶשְׂרָר יִקַּח אֶת־ אִשְׁתּוֹ אֶת־ אִשְׁתּוֹ אֶת־ אִשְׁתּוֹ אֶת־ אִשְׁתּוֹ
 और-कोई जो लेगा को- पत्नी को- पत्नी को- पत्नी को- अपने-भाई-की अपने-भाई-की है-यह नग्नता अपने-भाई-की उघाड़ी
 H0376 H3947 H0853 H0802 H0251 H0251 H0579 H1931 H6172 H0251 H1540

עֲרֻרִים יָהִיוּ:
 निःसन्तान होंगे
 H6185 H1961

“किसी व्यक्ति के लिए यह बुरा है कि वह अपने भाई की पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध करे। उस व्यक्ति ने अपने भाई के विरुद्ध पाप किया है। उनकी कोई सन्तान नहीं होगी।

22 וְשָׁמַרְתֶּם אֶת-כָּל-חֻקֹּתַי וְאֶת-כָּל-מִשְׁפָּטַי וְעִשְׂתֶּם אֹתָם וְלֹא- 22
 और-पालन-करोगे और-को- मेरी-विधियों सब- को- और-पालन-करोगे
[H3808](#) [H0853](#) [H4941](#) [H3605](#) [H0853](#) [H2708](#) [H3605](#) [H0853](#) [H8104](#)

תְּקִיא תְּקִיאוֹתֵיכֶם הָאָרֶץ אֲשֶׁר אָנֹכִי מְבִיא לָכֵן לְשַׁבַּת בָּהּ :
 उगलेगी तुम्हें तुम्हें जिसमें मैं ले-जा-रहा-हूँ तुम्हें वहां तुम्हें उसमें
[H3427](#) [H8033](#) [H0853](#) [H0935](#) [H0589](#) [H0776](#) [H0853](#) [H6958](#)

“तुम्हें मेरे सारे नियमों और निर्णयों को याद रखना चाहिए और तुम्हें उनका पालन अवश्य करना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रदेश को ले जा रहा हूँ। तुम लोग उस प्रदेश में रहोगे। यदि तुम लोग मेरे नियमों और निर्णयों को मानते रहे तो वह प्रदेश तुम लोगों को निकाल बाहर नहीं करेगा।

23 וְלֹא תֵלְכוּ בְּחֻקֹּתַי הַגּוֹי הַזֶּה אֲשֶׁר- 23
 और-नहीं चलोगे जाति-की विधियों-में और-नहीं
[H3605](#) [H0853](#) [H6440](#) [H7971](#) [H0589](#) [H2708](#) [H3212](#) [H3808](#)

אֵלֶּה עֲשֵׂוּ וְאַקֵן וְאֶקֶן :
 इन-सब किया और-घृणा-की-मैंने उनसे
[H6973](#) [H0428](#)

मैं अन्य लोगों को उस प्रदेश को छोड़ने के लिए विवश कर रहा हूँ। क्योंकि उन लोगों ने वे सभी पाप किए। मैं उन पापों से घृणा करता हूँ। इसलिए जिस प्रकार वे लोग रहे, उस तरह तुम नहीं रहोगे।

24 וְאָמַר לְכֶם אֲתֶם תִּירְשׁוּ אֶת- 24
 और-कहा-मैंने तुमसे तुम अधिकार-करोगे और-कहा-मैंने
[H3423](#) [H5414](#) [H0589](#) [H0127](#) [H0853](#) [H3423](#) [H0559](#)

מִן-אֲתֶם אֲרָץ אֲשֶׁר- 24
 से- तुम्हें तुम्हें अलग-किया तुम्हें तुम्हारा-परमेश्वर और-कहा-मैंने
[H0853](#) [H0914](#) [H0430](#) [H3068](#) [H0589](#) [H1706](#) [H2461](#) [H2100](#) [H0776](#) [H0853](#)

הַעַמִּים :
 जातियों

मैंने कहा है कि तुम उनका प्रदेश प्राप्त करोगे। मैं उनका प्रदेश तुमको दूँगा। यह तुम्हारा प्रदेश होगा। वह प्रदेश बहुत सुन्दर है। उसमें दूध वे मधु की नदियाँ बहती हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ! “मैंने तुम्हें विशेष बनाया है। मैंने तुम्हारे साथ अन्य लोगों से भिन्न व्यवहार किया है।

25 וְהִבְדַּלְתֶּם בֵּין-הַבְּהֵמָה הַטְּהוֹרָה לְטִמְאָה וּבֵין- 25
 और-अलग-करोगे और-अलग-करोगे और-बीच-में- अशुद्ध-से शुद्ध पशु बीच-में- और-अलग-करोगे
[H3808](#) [H2889](#) [H2931](#) [H5775](#) [H0996](#) [H2931](#) [H2889](#) [H0929](#) [H0996](#) [H0914](#)

אֲשֶׁר-הָאָרֶץ רֹמֵשׁ אֲשֶׁר וּבְכָל- 25
 जिन्हें- भूमि रेंगती-है जो और-किसी-भी-से और-पक्षी-से पशु-से अपने-प्राणों को- घृणित-करोगे
[H0127](#) [H7430](#) [H3605](#) [H5775](#) [H0929](#) [H5315](#) [H0853](#) [H8262](#)

לְטִמְאָה לְכֶם הִבְדַּלְתִּי :
 अशुद्ध-के-रूप-में तुम्हारे-लिए अलग-किया-मैंने
[H0914](#)

इसलिए तुम्हें शुद्ध जानवरों के साथ अशुद्ध जानवरों से भिन्न व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें शुद्ध पक्षियों के साथ अशुद्ध पक्षियों से भिन्न व्यवहार करना चाहिए। उन में से किसी भी अशुद्ध पक्षी, जानवर और कीट पतंग को मत खाओ जो भूमि पर रेंगते हैं। मैंने उन चीजों को अशुद्ध बनाया है।

26 וְהִיָּיתֶם לִי קְדָשִׁים כִּי- 26
 जातियों से- तुम्हें तुम्हें और-अलग-किया-मैंने यहोवा मैं पवित्र क्योंकि पवित्र मेरे-लिए और-होगे
[H0853](#) [H0914](#) [H3068](#) [H0589](#) [H6918](#) [H6918](#) [H1961](#)

לִּי לְהִיָּיתֶם :
 मेरे-लिए होने-को
[H1961](#)

मैंने तुम्हें अपना विशेष जन बनाया है। इसलिए तुम्हें मेरे लिए पवित्र होना चाहिए। क्योंकि मैं यहोवा हूँ और मैं पवित्र हूँ।

יִמָּוֵתוּ मारे-जाएंगे H4191	מִוֶּת मारे-जाने-से H4191	יִדְעֵנִי जाननेवाला H3049	אוּ या	אֹב भूत H0178	בָּהֶם उनमें	יִהְיֶה होगा H1961	כִּי- जब-	אִשָּׁה स्त्री H0802	אוּ- या-	וְאִישׁ और-कोई H0376
				פַּ	: בָּם — उन-पर	דְּמֵיהֶם उनका-खून H1818	אֲתָם उन्हें H0853	יִרְמֹוּ पत्थर-मारेंगे H7275	בָּאֲבָן पत्थर-से H0068	

“कोई पुरुष या कोई स्त्री जो ओझा हो या कोई भूतसिद्धि हो, तो उन्हें निश्चय ही मार दिया जाना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वे उन्हें पत्थर मार मार कर मार दें। उन्हें मार ही दिया जाना चाहिए।”